


तीन आसान कदम: अपने भविष्य और परिवार को सुरक्षित करें



सिर्फ 18 रुपये प्रति दिन से शुरुआत करें!
#बचत18

1 जीवन बीमा

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना



निवेश की आयु सीमा : 18-50 वर्ष

कवर की रकम : ₹ 2 लाख

प्रीमियम : ₹ 436 प्रति वर्ष

2 दुर्घटना बीमा

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना




निवेश की आयु सीमा : 18-70 वर्ष

कवर की रकम : मृत्यु/पूर्ण विकलांगता: ₹ 2 लाख
आंशिक विकलांगता: ₹ 1 लाख

प्रीमियम : ₹ 20 प्रति वर्ष

नाम दर्ज करने का तरीका:

1. अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाएं जहां आपका खाता है
2. दोनों बीमा योजनाओं के लिए फॉर्म मांगें
3. फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, पता, आधार नंबर और नॉमिनी के बारे में (संबंध, आधार नंबर, जन्म तिथि, पता)
4. फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसको जमा कर दें
5. रसीद लेकर उसे अच्छी तरह से चेक कर लें



FinanceForward2050

Building a Financially Inclusive World



सपनों का प्लान (एस आई पी)

महंगाई को मात देने का
एक सुरक्षित तरीका

निवेश करें
₹ 500/-
प्रति महीना

10 वर्षों में : 1.2 लाख
20 वर्षों में : 5 लाख
30 वर्षों में : 17.7 लाख

@12% प्रति वर्ष

निवेश करें
₹ 3000/-
प्रति महीना

10 वर्षों में : 7 लाख
20 वर्षों में : 30 लाख
30 वर्षों में : 1.1 करोड़

@12% प्रति वर्ष

**जितनी ज़्यादा रकम, जितना लम्बा समय,
उतना ज़्यादा फायदा!**

स्कीम	: निफ्टी 50 इंडेक्स फंड-ग्रोथ स्कीम
रकम	: कम से कम ₹ 500 प्रति महीना
समय	: कम से कम दस साल; कोशिश करें कि आप 60 वर्ष की उम्र तक का प्लान लें

नाम दर्ज करने का तरीका:

1. अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाएं जहां आपका खाता है – अगर आपका बैंक इस निवेश की सुविधा नहीं देता है, तो अपने नजदीकी म्यूचुअल फंड ऑफिस में जाएं (एस बी आई/आई सी आई सी आई/एच डी एफ सी/एक्सिस)
2. वहां पर एस आई पी खोलने के सारे फॉर्म मांगें
3. उनको स्कीम का नाम, रकम और समय बताएं और फॉर्म भरने में मदद मांगें
4. सभी आवश्यक कागज़ात और फॉर्म को जमा कर दें
5. अपने परिवार के किसी सदस्य को “नॉमिनी” जरूर बनाएं
6. शुरू की गई योजना की सारी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर आती रहेगी – पहला संदेश आने में 10-15 दिन लग सकते हैं

आवश्यक कागज़ात:

1. 1 पासपोर्ट साइज़ फोटो
2. आधार कार्ड (मूल और फोटोकॉपी)
3. अपने बैंक की चेकबुक
4. पैन कार्ड (अगर आपके पास है) (मूल और फोटोकॉपी)

जबकी म्यूचुअल फंड सुरक्षित है, इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है. लम्बे समय के लिए बचत करने से आप शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के जोखिम से बच सकते हैं.